

प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 17.06.2022

थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन करोड रुपए कीमत की 03 कि.ग्रा. फाइन क्वालिटी की अफीम के साथ 03

तस्कर गिरफ्तार, नकली नोट, 03 मोटरसाइकिल आदि बरामद ।

श्री एस. आनंद पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश तथा मादक पदार्थ तस्करी/खरीद फरोख्त में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेई, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री अरविन्द सिंह क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में थाना कटरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली।

दिनांक 16.06.22 की रात्रि थाना कटरा की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशील थी तभी समय करीब 23.40 बजे छकडापुर तिराहे से जलालाबाद रोड से अभियुक्तगण 1. अनूप सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह नि0ग्राम खमरिया थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर को 01 किलो ग्राम अफीम, 2. राजीव पुत्र धर्मपाल नि0मो0 जग्दमिबनी नौसारा कस्वा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर को एक 200 रुपये का नकली नोट व 01 किलो ग्राम अफीम, 3. करन पुत्र बदनपाल सिंह नि0 डौलापुर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर को 01 किलो ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 248/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम अनूप सिंह उपरोक्त, मु0अ0सं0 249/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम राजीव उपरोक्त, मु0अ0सं0 250/2022 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम करन उपरोक्त व मु0अ0सं0 251/2022 धारा धारा 489B भादवि बनाम राजीव उपरोक्त पंजीकृत किया गया विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय पेशी हेतु रवाना किया जायेगा । अभियुक्तगण से पूछताछ जारी है । पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश मे आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण:-

1. अनूप सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह नि0ग्राम खमरिया थाना गढिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर
2. राजीव पुत्र धर्मपाल नि0मो0 जग्दमिबनी नौसारा कस्वा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर
3. करन पुत्र बदनपाल सिंह नि0 डौलापुर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1-कुल 03 किलोग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम (अंतरराष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 03 करोड रुपये)
- 2- एक 200 रुपये का नकली नोट ।
3. कुल 03 मोटरसाइकिल
- 4.चार मोबाईल

विवरण पूछताछ:-

अभियुक्तगणों ने संयुक्त रूप से की गयी पूछताछ में बताया कि हम लोग आसपास के गाव के किसानों जो अफीम की खेती करते हैं। उनसे अफीम खरीद कर पंजाब ले जाकर पंजाब में हाईवे के किराने होटल ढावों पर सप्लाई कर देते हैं। पंजाब में अफीम की मांग बहुत है। वहां अफीम अच्छे दामों में बिक जाती है। आज भी हम लोग अलग-अलग मोटर साइकिलों से अलग-अलग माल लेकर अकेले-अकेले इसलिए जा रहे थे। अकेले मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को पुलिस चौक भी नहीं करती फिर भी पकड़े गये।

आपराधिक इतिहास:-

1. राजीव पुत्र धर्मपाल नि०मो० जगदमिबनी नौसारा कस्बा व थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

1.मु०अ०सं० 2125/17 धारा 51/9 वन्यजीव (संरक्षण) अधि० 1972 थाना जलालाबाद जिला शाह०

2. करन पुत्र बदनपाल सिंह नि० डौलापुर थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

1.मु०अ०सं० 519/18 धारा 147/148/352/504/506 भादवि थाना जलालाबाद जिला शाह०

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सोलंकी थाना कटरा जनपद शाह०
2. उ०नि० अनित कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
3. हे०का० 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
4. हे०का० 400 अजय राना थाना कटरा जनपद शाह०
5. हे०का० 56 प्रमोद कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
6. हे०का० 79 तैय्यव अली थाना कटरा जनपद शाह०
7. का० 1802 नवीन कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
8. का० 2282 अंकुर मलिक थाना कटरा जनपद शाह०
9. का० 2137 राहुल कुमार थाना कटरा जनपद शाह०
- 10.का० 2057 रोहित चौहान थाना कटरा जनपद शाह०
- 11.का० 2571 सुमित भाटी थाना कटरा जनपद शाह०